

जीसस यूथ पुर्न प्रतिबद्धता की शपथ

पिता परमेश्वर, मैं आपके जीवन और प्रेम के उपहार के लिए आपकी प्रशंसा, धन्यवाद और आराधना करता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी संतान हूँ। हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ उस प्रेम और देखभाल के लिए जिसे मैंने जीसस यूथ आन्दोलन में अपने भाइयों और बहनों के सुन्दर साहचर्य के द्वारा महसूस किया।

प्रभु येशु, मैं एक बार फिर अपने आपको तेरे लिए प्रतिबद्ध करना चाहता हूँ मैं अपने जीवन में अंधेरे की सभी शक्तियों का त्याग करता हूँ और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे अतीत के घावों को भर दे मेरे वर्तमान को आशीष दे और मेरे भविष्य पर सिर्फ तेरा ही नियंत्रण हो।

हे पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन के हर एक क्षण में तेरे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने सारे वरदानों, फलों और कैरिज्म से आशीषित कर दे कि मैं दृढ़ता पूर्वक पवित्रता की ओर बढ़ूँ और प्रभावशाली तरीके से अपनी मिशनरी बुलाहट को जी सकूँ।

हे पवित्र त्रित्व एक ईश्वर, मैं (व्यक्ति का नाम) जिस प्रकार आपकी दिव्य उपस्थिति में खड़ा हूँ, मैं अपने आप को एक बार फिर से आपके प्रेम और जीसस यूथ आन्दोलन के प्रति पुर्नप्रतिबद्ध करता हूँ। मैं आपको जीसस यूथ आन्दोलन के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में मिली आशीषों, जिन्होंने मुझे आपके और समीप आने में सहायता की, के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सभी पुरोहितों अनुप्राणकों जीसस यूथ के अग्रजों और मित्रों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे उस व्यक्ति में ढलने में मदद कि जो आज मैं हूँ।

आपके दिव्य अनुग्रह और जीसस यूथ समुदाय के समर्थन में विश्वास करते हुए, मैं स्वयं को प्रतिबद्ध करने के लिए यह प्रतिज्ञा करता हूँ।

- जीसस यूथ जीवन शैली जीने की (छः स्तंभों का पालन करते हुए)
- जीसस यूथ की दैनिक प्रार्थना को प्रतिदिन करने का सच्चा प्रयास
- आंदोलन द्वारा प्रस्तावित फार्मेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तत्परता

मैं विनम्रता पूर्वक आपसे संबल और प्रार्थना चाहता हूँ

माँ मारिया, प्रेरितों की रानी, प्रार्थना कर, की हर एक जीसस यूथ, पेंतेकोस्त की शक्ति से परिवर्तित हो जाए और आपके पुत्र येशु का सच्चा मिशनरी शिष्य बनकर भेजा जाए। आमेन

पुर्न प्रतिबद्धता

कृपया इसे भरके
जिम्मेदार व्यक्ति को दे

नाम _____

लिंग _____

जन्म तिथि _____
(दि/मा/वर्ष)

ई मेल _____

फोन _____

पता _____

देश, _____
रीजियन और ज़ोन _____

(उस जगह की जानकारी लिखिए जहाँ से आप हैं न की जहाँ आप प्रतिबद्धता ले रहे हैं)

पुर्न प्रतिबद्धता _____ 2018
यहाँ पर लिया _____
(स्थान का नाम और देश) _____ दिनांक (दि/मा)

पिछले साल प्रतिबद्धता _____
कहाँ पर लिया? _____
(स्थान का नाम और देश)

आप किस जीसस यूथ _____
साहचर्य के नियमित _____
भाग हैं? _____
कुटुंब, प्रार्थना समूह, लघु समूह

अगर आप जीसस यूथ _____
की किसी मिनिस्ट्री में _____
शामिल हैं तो कृपया _____
इसका उल्लेख करें _____

